

प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 14.11.2022

चोरी की टाटा मैजिक वाहन के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक नगर के मार्ग दर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में, जनपद में हो रही चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु प्र०नि० थाना खोराबार व उनकी टीम को लगाया गया था। जिसके क्रम में उ०नि० रिजवान अहमद मय टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 718/22 धारा 379 भादवि से संबंधित अभियुक्तगण 1.पप्पू भारती पुत्र स्वामीनाथ निवासी जंगल गौरी लुठईया टोला थाना झगहा जनपद गोरखपुर 2.एजाज अहमद पुत्र मो० खालीद निवासी रानीडीहा थाना खोराबार जनपद गोरखपुर 3. सूरज राजभर पुत्र जयराम राजभर निवासी जमुना सिंह का मठिया थाना कोतवाली जनपद को चोरी की टाटा मैजिक गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त चोरी के वाहन की तलाशी करने पर वाहन पर से दो अदद लोहे का गेट बरामद हुआ जिसके सम्बंध में पूछने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि यह गेट हम तीनों ने मिलकर रानी डीहा पर स्थित वर्मा ज्वेलर्स की गली से चुराया था और उसे भी गाड़ी के साथ बेचने जा रहे थे। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि करते हुये अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. पप्पू भारती पुत्र स्वामीनाथ निवासी जंगल गौरी लुठईया टोला थाना झगहा जनपद गोरखपुर
2. एजाज अहमद पुत्र मो० खालीद निवासी रानीडीहा थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
3. सूरज राजभर पुत्र जयराम राजभर निवासी जमुना सिंह का मठिया थाना कोतवाली जनपद देवरिया

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 718/2022 धारा 379,411 भा०द०वि० थाना खोराबार, जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

टाटा मैजिक गाड़ी व 02 अदद लोहे की गेट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1. उ०नि० रिजवान अहमद थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. हे०कां० बृजेश कुमार सिंह खोराबार जनपद गोरखपुर
3. कां० पिंटू प्रसाद थाना खोराबार जनपद गोरखपुर